

भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{5}{9} \times \frac{4}{6} =$$

$$\frac{2}{4} \times \frac{3}{8} =$$

$$\frac{5}{7} \times \frac{5}{6} =$$

$$\frac{5}{9} \times \frac{3}{2} =$$

$$\frac{7}{3} \times \frac{5}{4} =$$


$$\frac{4}{6} \times \frac{4}{5} =$$

$$\frac{5}{2} \times \frac{5}{2} =$$

$$\frac{7}{6} \times \frac{7}{8} =$$

$$\frac{1}{8} \times \frac{1}{5} =$$

$$\frac{4}{5} \times \frac{4}{6} =$$



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{5}{9} \times \frac{4}{6} = \frac{10}{27}$$

$$\frac{2}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{16}$$

$$\frac{5}{7} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{42}$$

$$\frac{5}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{7}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{35}{12} = 2\frac{11}{12}$$

$$\frac{4}{6} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$$

$$\frac{5}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{25}{4} = 6\frac{1}{4}$$

$$\frac{7}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{49}{48} = 1\frac{1}{48}$$

$$\frac{1}{8} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{40}$$

$$\frac{4}{5} \times \frac{4}{6} = \frac{8}{15}$$